



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 फाल्गुन, 1939 (श०)

संख्या- 190 राँची, बुधवार,

7 मार्च, 2018 (ई०)

#### नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

7 मार्च, 2018

संख्या- 08/चुनाव/102/2018/न.वि.आ.-1221-- यतः राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड ने अपने पत्रांक-03नि.(कार्यक्रम) 24/2013 रा.नि.आ.-279 दिनांक 27 फरवरी, 2018 के माध्यम से झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा 539 के तहत झारखण्ड के राज्यपाल को अपनी अनुशंसा प्रेषित की है कि राज्य अन्तर्गत मेदिनीनगर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम, गिरिडीह नगर निगम, राँची नगर निगम, आदित्यपुर नगर निगम, गढ़वा नगर परिषद (वर्ग-ख), चतरा नगर परिषद (वर्ग-ख), मधुपुर नगर परिषद (वर्ग-ख), गोड्डा नगर परिषद (वर्ग-ख), साहेबगंज नगर परिषद (वर्ग-ख), पाकुड़ नगर परिषद (वर्ग-ख), दुमका नगर परिषद (वर्ग-ख), मिहिजाम नगर परिषद (वर्ग-ख), चिरकुण्डा नगर परिषद (वर्ग-ख), फुसरो नगर परिषद (वर्ग-ख), लोहरदगा नगर परिषद (वर्ग-ख), गुमला नगर परिषद (वर्ग-ख), सिमडेगा नगर परिषद (वर्ग-ख), चाईबासा नगर परिषद (वर्ग-ख), हुसैनाबाद नगर पंचायत, लातेहार नगर पंचायत, राजमहल नगर पंचायत, बासुकीनाथ नगर पंचायत, जामताड़ा नगर पंचायत, खूँटी नगर पंचायत, बुण्डू नगर पंचायत, सरायकेला नगर पंचायत एवं चाकुलिया नगर पंचायत का पाँच वर्षों का कार्यकाल माह मई, 2018 में समाप्त हो रहा है तथा कार्यकाल समाप्ति के पूर्व झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 16(5) के उपबंधों के अधीन इन नगरपालिकाओं को गठित करने हेतु आम निर्वाचन कराया जाना आवश्यक है। साथ ही

नवगठित नगरपालिका यथा-रामगढ़ नगर परिषद (वर्ग-क), कपाली नगर परिषद (वर्ग-ख), नगर उंटारी नगर पंचायत, छत्तरपुर नगर पंचायत, डोमचांच नगर पंचायत एवं बरहरवा नगर पंचायत में भी निर्वाचन कराया जाना है। इस प्रकार कुल 34 नगरपालिकाओं में आम निर्वाचन कराए जाने हैं।

इसके अतिरिक्त राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड ने यह भी अनुशंसा प्रेषित की है कि झुमरीतिलैया नगर परिषद (वर्ग-ख) के अध्यक्ष का पद एवं विश्रामपुर नगर परिषद (वर्ग-ख) के वार्ड सं.-04, देवघर नगर निगम के वार्ड सं.-25 तथा धनबाद नगर निगम के वार्ड नं.-31 एवं 40 में आकस्मिक रिक्ति उपलब्ध है, जिस पर धारा 589 के उपबंधों के अधीन उप निर्वाचन कराया जाना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-539 के अन्तर्गत जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अनुशंसा की है, झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा मेदिनीनगर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम, गिरिडीह नगर निगम, राँची नगर निगम, आदित्यपुर नगर निगम, रामगढ़ नगर परिषद (वर्ग-क), गढ़वा नगर परिषद (वर्ग-ख), चतरा नगर परिषद (वर्ग-ख), मधुपुर नगर परिषद (वर्ग-ख), गोड्डा नगर परिषद (वर्ग-ख), साहेबगंज नगर परिषद (वर्ग-ख), पाकुड़ नगर परिषद (वर्ग-ख), दुमका नगर परिषद (वर्ग-ख), मिहिजाम नगर परिषद (वर्ग-ख), चिरकुण्डा नगर परिषद (वर्ग-ख), फुसरो नगर परिषद (वर्ग-ख), लोहरदगा नगर परिषद (वर्ग-ख), गुमला नगर परिषद (वर्ग-ख), सिमडेगा नगर परिषद (वर्ग-ख), चाईबासा नगर परिषद (वर्ग-ख), कपाली नगर परिषद (वर्ग-ख), नगर उंटारी नगर पंचायत, हुसैनाबाद नगर पंचायत, छत्तरपुर नगर पंचायत, लातेहार नगर पंचायत, डोमचांच नगर पंचायत, राजमहल नगर पंचायत, बरहरवा नगर पंचायत, बासुकीनाथ नगर पंचायत, जामताड़ा नगर पंचायत, खूँटी नगर पंचायत, बुण्डू नगर पंचायत, सरायकेला नगर पंचायत एवं चाकुलिया नगर पंचायत तथा झुमरीतिलैया नगर परिषद (वर्ग-ख) के अध्यक्ष पद एवं विश्रामपुर नगर परिषद (वर्ग-ख) के वार्ड सं.-04, देवघर नगर निगम के वार्ड सं.-25 तथा धनबाद नगर निगम के वार्ड नं.-31 एवं 40 के निर्वाचन क्षेत्र के मतदातागण से यह अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम एवं उसके तहत बनी नियमावली के उपबंधों के अनुसार एक चरण में उक्त निर्वाचन क्षेत्र/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से दिनांक-16.04.2018 को पदधारियों को निर्वाचित कर दें।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

**अरुण कुमार सिंह,**  
सरकार के प्रधान सचिव।

-----